

प्रश्न पुस्तिका / QUESTION BOOKLET

इस परीक्षा प्रिस्क्रिप्शन को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए। / Do not open this test booklet until you are asked to do so.

Question Booklet Number
جوابیہ کتاب کا نمبر

80

<p>पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या /</p>	<p>Number of Pages in Booklet</p>	<p>16</p>
---	---	------------------

<p>पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या / Number of Pages in Booklet</p>	<p>16</p>	<p>पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या / Number of Questions in Booklet</p>	<p>120</p>
--	------------------	---	-------------------

समय / Time
2.00
 घंटे / Hours
 10:00 AM TO 12:00 NOON
 (MORNING)

पूर्णक /
Maximum
Marks

120

+
80G2

INSTRUCTIONS

1. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. Candidate will themselves be responsible for filling wrong Roll No.
 2. At the start of the examination before attempting the question paper kindly check your test booklet and OMR Answer Sheet and ensure that :
 * The serial numbers of test booklet and OMR answer sheet are same.
 * All pages of test booklet and OMR answer sheet are properly printed. All questions from S.No. 1 to last S.No. 120 are printed and pages from S.No. 1 to last S. No. 16 are there in the question booklet.
 3. In case of any discrepancy / defect the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of test booklet and OMR answer sheet. No claim / objection in this regard will be entertained after five minutes of start of examination. Candidate will be liable for it.
 4. Answer all questions.
 5. All questions carry equal marks.
 6. Only one answer is to be given for each question.
 7. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
 8. Each question has four alternative responses marked serially as (A), (B), (C), (D). You have to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.
 9. Use of Mobile Phone/Bluetooth Devices or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. If any such prohibited material found with any candidate, strict action will be taken against him/her as per rule.
 10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature in Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.
 11. Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would liable to be prosecuted under Section 3 of the State Prevention of Unfair means Act, 1992 and Board Regulations.
 12. The Board may also debar him/her permanently from all future examination of the Board.

1

16

उत्तर पत्रक में दो प्रतियाँ हैं - मूल प्रति और द्वितीय प्रति, परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक के दोनों प्रतियों चौक्सक को सौंपेंगे, परीक्षार्थी तक द्वितीय प्रति को अलग नहीं करें। चौक्सक द्वारा उत्तर पत्रक की मूल प्रति को अपने पास जाना कर, द्वितीय प्रति को मूल प्रति से कट लाइन से मोड़ कर परीक्षार्थी पूर्वक अलग कर परीक्षार्थी को सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वितीय प्रति को अपने साथ ले जायें।

+
80G2

16

- 1 Drinking water from Indira Gandhi Nahar Project is NOT supplied to which of the following places ?
 (A) Bikaner (B) Jodhpur
 (C) Pali (D) Barmer
- 2 Which breed of Sheep in Rajasthan is also known as 'Indian Marino' ?
 (A) Malpura (B) Pugal
 (C) Naali (D) Magra
- 3 Which of the following convention works to combat desertification ?
 निम्न में से कौन सा सम्बलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है ?
 (A) UNICEF (B) UNCCD
 (C) UNESCO (D) UNWF
- 4 Which of the following princely state in Rajasthan was the first to enact a scheme of preservation of the forests ?
 (A) Marwar (B) Jaipur
 (C) Jodhpur (D) Kota
- 5 Which of the following is not a category of Ground Water Blocks in Rajasthan ?
 (A) Safe (B) Semi-Critical
 (C) Over-exploited (D) Least-exploited
- 6 'Barchan' landform is associated with which of the following physical divisions ?
 (A) Hilly Region (B) Plateau Region
 (C) Plain Region (D) Desert Region
- 7 River Mahi forms a boundary between which of the following districts in Rajasthan ?
 (A) Pratapgarhi - Dungarpur
 (B) Dungarpur - Banswara
 (C) Dungarpur - Udaipur
 (D) Banswara - Pratapgarh
- 8 The Hela Khyal folk music belongs to which of the following areas of Rajasthan ?
 (A) Sikar - Jhunjhunu
 (B) Dausa - Sawai Madhopur
 (C) Bhilwara - Chittor
 (D) Dungarpur - Banswara
- 9 Where is the main temple of Devnarayanji located ?
 (A) Talwada (B) Aashind
 (C) Ramdevra (D) Panchota
- 10 Which princess of Bikaner was felicitated with Arjun Award in 1968 for Shooting ?
 (A) Bhuvaneswari Kumari (B) Utsav
 (C) Sonakshi Rathore (D) Utsa Devi
- 11 Which of the following inscription throws light on the early history of Chittor ?
 (A) Achaleshwar's inscription
 (B) Mamori's inscription
 (C) Samoli's inscription
 (D) Bijoliya's inscription
- 12 Name the clan goddess of Rathore Dynasty.
 (A) Ashapala (B) Shakambhari
 (C) Nagnechi (D) Bijasan
- 13 Sikka Elohi was issued by which Mughal emperor in Mewar after conquering Chittor ?
 (A) Babur (B) Akbar
 (C) Jahangir (D) Shah Jahan
- 14 'Pachhewda' refers to –
 (A) Turban (B) Jewellery
 (C) Costume (D) Utensil
 'फैखड़ा' संबंधित है –
 (A) पाटी से (B) आमूषा से
 (C) परिधान से (D) बरने से
- 15 'Bomb' dance is associated with which place ?
 (A) Alwar (B) Udaipur
 (C) Shekhawati (D) Marwar
 'बम' तृत का सर्वथ्र किस त्थान से है ?
 (A) अलवर (B) उदयपुर
 (C) शेखावाटी (D) मारवाड़
- 16 Who was the author of 'Anandvilas' ?
 (A) Maharaja Raj Singh I
 (B) Maharaja Jawant Singh I
 (C) Sawai Jagat Singh I
 (D) Rao Maldev
- 17 Who was the author of 'Harimekhla' ?
 (A) Mahuk (B) Jayanak
 (C) Shyamal Das (D) Sadashiv
 'हरिमेखला' के रचयिता कौन थे ?
 (A) जगतसिंह I (B) महाराजा जसवंतसिंह I
 (C) सराई जगतसिंह I (D) राव मालदेव
- 18 Eastern plain region of Rajasthan occupies approximate percentages of Rajasthan State's total geographical area -
 (A) 61% (B) 23%
 (C) 09% (D) 33%
 राजस्थान का पूर्ण भैरवी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है –
 (A) 61% (B) 23%
 (C) 09% (D) 33%

- 14 'Pachhewda' refers to –
 (A) Turban (B) Jewellery
 (C) Costume (D) Utensil
 'फैखड़ा' संबंधित है –
 (A) पाटी से (B) आमूषा से
 (C) परिधान से (D) बरने से
- 15 'Bomb' dance is associated with which place ?
 (A) Alwar (B) Udaipur
 (C) Shekhawati (D) Marwar
 'बम' तृत का सर्वथ्र किस त्थान से है ?
 (A) अलवर (B) उदयपुर
 (C) शेखावाटी (D) मारवाड़
- 16 Who was the author of 'Anandvilas' ?
 (A) Maharaja Raj Singh I
 (B) Maharaja Jawant Singh I
 (C) Sawai Jagat Singh I
 (D) Rao Maldev
- 17 Who was the author of 'Harimekhla' ?
 (A) Mahuk (B) Jayanak
 (C) Shyamal Das (D) Sadashiv
 'हरिमेखला' के रचयिता कौन थे ?
 (A) जगतसिंह I (B) महाराजा जसवंतसिंह I
 (C) सराई जगतसिंह I (D) राव मालदेव
- 18 Eastern plain region of Rajasthan occupies approximate percentages of Rajasthan State's total geographical area -
 (A) 61% (B) 23%
 (C) 09% (D) 33%
 राजस्थान का पूर्ण भैरवी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है –
 (A) 61% (B) 23%
 (C) 09% (D) 33%

80G2 +

P.T.O.

80G2 +

3

2

P.T.O.

- 19 In Rajasthan, which one of the following is popularly known as 'Mavath' ?
 (A) Hilly Salt
 (B) Desert Soil
 (C) Winter Rainfall
 (D) Folk Dance
- 20 In Rajasthan 'March of Desert' mechanism is related with –
 (A) Winter rainfall in desert
 (B) Extreme temperature in desert
 (C) Declination of desert
 (D) Declination of ground water level in desert
- 21 Which of the following is not a Gypsum producing centre at Barmer ?
 (A) Kurla
 (B) Sheekar
 (C) Khutiaani
 (D) Paar ki Dhaani
- 22 Where the Jait Sagar Talab is situated ?
 (A) Udaipur
 (B) Bundi
 (C) Ajmer
 (D) Mount Abu
- 23 Who among the following saints was Muslim by birth ?
 (A) Mayji
 (B) Haridas
 (C) Laldas
 (D) Charandas
- 24 Where the Kishore Sagar Lake (Talab) is situated ?
 (A) Kota
 (B) Bundi
 (C) Kishangarh
 (D) Bijolia
- 25 Who said that Political Freedom had no meaning without economic empowerment ?
 (A) Ratandevi Shastri
 (B) Kamla Swadhin
 (C) Kalyani Parashar
 (D) Shanti Trivedi
- 26 Where did Virangana Kalibai live, who sacrificed her life to protect her teacher ?
 (A) Sagwara
 (B) Rastapal
 (C) Simalwara
 (D) Banswara
- 27 Who was the founder of Kamadiya Panth ?
 (A) Saint Peepa
 (B) Saint Dhanna
 (C) Saint Laldas
 (D) Saint Ramdev
- 28 Who was the ruler of Jodhpur at the time of its integration in Rajasthan ?
 (A) Maharaja Hanwant Singh
 (B) Maharaja Umed Singh
 (C) Maharaja Ajit Singh
 (D) Maharaja Bhim Singh
- 29 In which area of Rajasthan 'Pandhari Modhaks' are famous ?
 (A) Jodhpur
 (B) Nathdwara
 (C) Bikaner
 (D) Jaipur
- 30 Who was 'Agent to the Governer General' (AGG) in 'Rajputana Residency' at the time of uprising of 1857 ?
 (A) Major Burton
 (B) William Eden
 (C) Captain Showers
 (D) Patrick Lawrence
- 31 The princely state, which was not the part of Rajasthan Union formed on 25th March, 1948 –
 (A) Bundi
 (B) Pratapgarh
 (C) Udaipur
 (D) Shahpura
- 32 Jakham dam project is situated in which of the following district of Rajasthan ?
 (A) Pratapgarh
 (B) Udaipur
 (C) Banswara
 (D) Dungarpur
- जाकम बाध्य परीयजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है ?
 (A) प्रतापगढ़
 (B) उदयपुर
 (C) बांसवाड़ा
 (D) दुण्डुरा
- 33 Which of the following product is used in making of curtains ?
 (A) Ambla
 (B) Khas
 (C) Tendu
 (D) Jhadui
- निम्नलिखित जलादों में से कौन सा, परदे बनाने में काम आता है ?
 (A) अंबाला
 (B) छातुक
 (C) टेंदु
 (D) झाड़ु
- 34 Which of the following is in the UNESCO's list of 'World Heritage' sites ?
 (A) Desert National Park
 (B) Ranthambhor Tiger Project Park
 (C) Keoladeo National Park
 (D) Chambal Gharialy Sanctuary
- निम्न में से कौन सा युरोपी की 'विश्व विरासत' स्थल सूची में है ?
 (A) राष्ट्रीय मठ उद्यान
 (B) राष्ट्रीय बाघ परियोजना उद्यान
 (C) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
 (D) चांडीगढ़ अभ्यारण्य
- 35 NH-44 passes through which of the following districts in Rajasthan ?
 (A) Dausa
 (B) Dholpur
 (C) Karauli
 (D) Sawai Madhopur
- राष्ट्रीय राजमार्ग-44 राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से निकलता है ?
 (A) मेहर बरन
 (B) विल्यम ईडन
 (C) कैटन शॉवर्स
 (D) फ्रेडिक लारेन्स
- 36 Hilly soils in Rajasthan are found at :
 (A) Kota and Sirohi
 (B) Udaipur and Sirohi
 (C) Sirohi and Ajmer
 (D) Udaipur and Kota
- पहाड़ी टूटा राजस्थान में पायी जाती है :
 (A) कोटा व सिरोही में
 (B) उदयपुर व सिरोही में
 (C) सिरोही व अजमेर में
 (D) उदयपुर व कोटा में

- 24 Where the Kishore Sagar Lake (Talab) is situated ?
 (A) Kota
 (B) Bundi
 (C) Kishangarh
 (D) Bijolia
- किशोर सागर झील (तालाब) कहाँ स्थित है ?
 (A) कोटा
 (B) बूद्धी
 (C) किशनगढ़
 (D) बिजोलिया
- 25 Who said that Political Freedom had no meaning without economic empowerment ?
 (A) Ratandevi Shastri
 (B) Kamla Swadhin
 (C) Kalyani Parashar
 (D) Shanti Trivedi
- ‘आर्थिक सशक्तीकरण के बिना राजनीतिक लड़तंत्रता का कोई अर्थ नहीं’ यह किसने कहा था ?
 (A) रतनदेवी शस्त्री
 (B) कमला लाल्हीन
 (C) कल्याणी पाराशर
 (D) शान्ति निवेदी
- 26 Where did Virangana Kalibai live, who sacrificed her life to protect her teacher ?
 (A) Sagwara
 (B) Rastapal
 (C) Simalwara
 (D) Banswara
- कीरणा कालीबाई, जिसने अशापक को बचाने में अपनी जिवरी दी थी, वह कर्ता की रुटे बाली थी ?
 (A) सागवाड़ा
 (B) रातापाल
 (C) सिमलवाड़ा
 (D) बासवाड़ा
- 27 Who was the founder of Kamadiya Panth ?
 (A) Saint Peepa
 (B) Saint Dhanna
 (C) Saint Laldas
 (D) Saint Ramdev
- कमाडिया पंथ के संसापक कौन है ?
 (A) संत पीपा
 (B) संत धन्ना
 (C) संत लालदास
 (D) संत रामदेव
- 28 Who was the ruler of Jodhpur at the time of its integration in Rajasthan ?
 (A) Maharaja Hanwant Singh
 (B) Maharaja Umed Singh
 (C) Maharaja Ajit Singh
 (D) Maharaja Bhim Singh
- राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे ?
 (A) प्रतापगढ़
 (B) उदयपुर
 (C) बांसवाड़ा
 (D) दुण्डुरा
- 29 In which area of Rajasthan 'Pandhari Modhaks' are famous ?
 (A) Jodhpur
 (B) Nathdwara
 (C) Bikaner
 (D) Jaipur
- राजस्थान के किस क्षेत्र में ‘पन्धरी मोढ़क’ प्रसिद्ध है ?
 (A) जोधपुर
 (B) नाथद्वारा
 (C) बिकानेर
 (D) जयपुर
- 30 Who was 'Agent to the Governor General' (AGG) in 'Rajputana Residency' at the time of uprising of 1857 ?
 (A) Major Burton
 (B) William Eden
 (C) Captain Showers
 (D) Patrick Lawrence
- 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के विजयनगर के समय ‘राजपुताना ऐजीडीसी’ में ‘एकेट दु गवर्नर जनरल’ (ए जी जी) कौन था ?
 (A) मेहर बरन
 (B) विल्यम ईडन
 (C) कैटन शॉवर्स
 (D) फ्रेडिक लारेन्स
- 31 The princely state, which was not the part of Rajasthan Union formed on 25th March, 1948 –
 (A) Bundi
 (B) Pratapgarh
 (C) Udaipur
 (D) Shahpura
- जैत सागर तालाब कहाँ स्थित है ?
 (A) उदयपुर
 (B) बूद्धी
 (C) अजमेर
- 32 Jakham dam project is situated in which of the following district of Rajasthan ?
 (A) Pratapgarh
 (B) Udaipur
 (C) Banswara
 (D) Dungarpur
- जाकम बाध्य परीयजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है ?
 (A) प्रतापगढ़
 (B) उदयपुर
 (C) बांसवाड़ा
 (D) दुण्डुरा
- 33 Which of the following product is used in making of curtains ?
 (A) Ambla
 (B) Khas
 (C) Tendu
 (D) Jhadui
- निम्नलिखित जलादों में से कौन सा, परदे बनाने में काम आता है ?
 (A) अंबाला
 (B) छातुक
 (C) टेंदु
 (D) झाड़ु
- 34 Which of the following is in the UNESCO's list of 'World Heritage' sites ?
 (A) Desert National Park
 (B) Ranthambhor Tiger Project Park
 (C) Keoladeo National Park
 (D) Chambal Gharialy Sanctuary
- निम्न में से कौन सा युरोपी की ‘विश्व विरासत’ स्थल सूची में है ?
 (A) राष्ट्रीय मठ उद्यान
 (B) राष्ट्रीय बाघ परियोजना उद्यान
 (C) केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
 (D) चांडीगढ़ अभ्यारण्य
- 35 NH-44 passes through which of the following districts in Rajasthan ?
 (A) Dausa
 (B) Dholpur
 (C) Karauli
 (D) Sawai Madhopur
- राष्ट्रीय राजमार्ग-44 राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से निकलता है ?
 (A) मेहर बरन
 (B) विल्यम ईडन
 (C) कैटन शॉवर्स
 (D) फ्रेडिक लारेन्स
- 36 Hilly soils in Rajasthan are found at :
 (A) Kota and Sirohi
 (B) Udaipur and Sirohi
 (C) Sirohi and Ajmer
 (D) Udaipur and Kota
- पहाड़ी टूटा राजस्थान में पायी जाती है :
 (A) कोटा व सिरोही में
 (B) उदयपुर व सिरोही में
 (C) सिरोही व अजमेर में
 (D) उदयपुर व कोटा में

- 37 River Chambal forms a boundary between which of the following districts in Rajasthan ?
 (A) Kota - Baran
 (B) Baran - Jhalawar
 (C) Kota - Sawai Madhopur
 (D) Sawai Madhopur - Tonk
- चम्बल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है ?
 (A) कोटा - बारां
 (B) बारां - झालावाह
 (C) कोटा - सचाई माधेपुर
 (D) सचाई माधेपुर - टॉक
- 38 What is the other name of Luni Basin ?
 (A) Shekhawati Tract
 (B) Gondwana Tract
 (C) Mavli Tract
 (D) Godwar Tract
- लुणी बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है ?
 (A) शेखावाही क्षेत्र
 (B) गोणडवाना क्षेत्र
 (C) मावली क्षेत्र
 (D) गोडवार क्षेत्र
- 39 In Rajasthan, Tanka and Khadeen are types of -
 (A) Traditional Warfare
 (B) Traditional Folk Dance
 (C) Traditional Agriculture System
 (D) Traditional Water Conservation Methods
- राजस्थान में, टांका और खड़ीन प्रकार है -
 (A) परम्परागत युद्धक्षेत्र के
 (B) परम्परागत लोकगृह्यता के
 (C) परम्परागत कृषि पद्धति के
 (D) परम्परागत जल संरक्षण लोकगृह्यता के
- 40 In Rajasthan, according to XXth census of animals (2017), which of the following districts has maximum number of livestock ?
 (A) Dholpur
 (B) Barmer
 (C) Nagaur
 (D) Jaipur
- निम्न में से किस जिले में, राजस्थान की XX-वीं पशुपालन (2017) के अनुसार सर्वाधिक पशुधन सज्जा है ?
 (A) धौलपुर
 (B) बार्मेर
 (C) नागौर
 (D) जयपुर

- 41 Which pump is more suitable for an application where very high pressure is required to be developed at moderate discharge ?
 (A) Reciprocating pump
 (B) Centrifugal pump
 (C) Turbine
 (D) None of these
- एक अनुप्रयोग हेतु उच्च दबाव विभवित करने के लिए जान्हुं मध्यम प्रवाह हो, तो कौन सा पंप अधिक उपयोग से रहता है ?
 (A) प्रत्यागमी पंप
 (B) अपेक्षिती पंप
 (C) टरबाइन
 (D) इनमें से कोई नहीं
- 42 Which of the following is not used in gas turbine power plant ?
 (A) Compressor
 (B) Turbine
 (C) Combustion chamber
 (D) Condenser
- निम्न में से कौन सा गैस राखाइन ऊर्जा संयंत्र का घटक नहीं है ?
 (A) संयोजित
 (B) राखाइन
 (C) दहन कक्ष
 (D) संविनिय
- 43 Which of the following centrifugal pumps has higher specific speed than the others ?
 (A) Axial flow
 (B) Radial flow
 (C) Mixed flow
 (D) All have same specific speed
- इनमें से किस अपेक्षिती पंप की विशेष गति अन्य से अधिक है ?
 (A) अक्षीय प्रवाह
 (B) विष्व (रेडियल) प्रवाह
 (C) मिश्रित प्रवाह
 (D) सभी की विशेष गति समान है

- 44 What is the discharge capacity of the reciprocating pump as compared to the centrifugal pump ?
 (A) Higher
 (B) Lower
 (C) Same
 (D) Unpredictable
- एक प्रत्यागमी पंप की निकास क्षमता अपेक्षिती पंप की कुलांग में क्या है ?
 (A) ज्यादा
 (B) कम
 (C) बराबर
 (D) अप्रयोगित
- 45 Which type of coordinate system is used in Auto CAD ?
 (A) 2-Dimensional
 (B) 3-Dimensional
 (C) 1-Dimensional
 (D) User dependent
- Auto CAD में किस प्रकार की निर्देशिक प्रणाली का उपयोग करते हैं ?
 (A) 2-आयामी
 (B) 3-आयामी
 (C) 1-आयामी
 (D) उच्चयोग्याकार के अनुसार
- 46 _____ is used to communicate information to industry.
 (A) Design data
 (B) Installation drawing
 (C) Machine drawing
 (D) Patent drawing
- उद्योग में सचार जानकारी के लिए प्रयोग करते हैं ।
 (A) डिजाइन डाटा
 (B) इस्टेलेशन ड्राइंग
 (C) मशीन ड्राइंग
 (D) पेटेंट ड्राइंग
- 47 This type of auxiliary view is projected onto a plane that is perpendicular to one of the principal planes of projection
 (A) Primary
 (B) Secondary
 (C) Revolved
 (D) Successive
- इस तरह के सहायक दृश्य को एक समतल (जैसा) प्रयोगित किया जाता है जो प्रक्षेपण के प्रभुत्व समतल (जैसे) में से एक के लिए लोकवत है -
 (A) प्राथमिक
 (B) द्वितीयक
 (C) सूमती
 (D) कमिक

- 48 Which of the following scale is a reducing scale ?
 निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना कम करते जाता पैमाना है ?
 (A) 1 : 3
 (B) 1 : 2
 (C) 1 : 1
 (D) 1 : 04
- 49 Which type of line is part of a dimension ?
 (A) Break lines
 (B) Phantom lines
 (C) Extension lines
 (D) Cutting plane lines
- किस प्रका की रेखा एक आयाम का इस्ता है ?
 (A) विचेत रेखाएँ
 (B) आभासी रेखाएँ
 (C) वर्धन रेखाएँ
 (D) काट समतल रेखाएँ

7

80G2 +

P.T.O.

6

80G2 +



7

52 Air standard efficiency of Otto-cycle is given by -
निम्नलिखित में से कौन सी अटो-चक्र की वायु प्राप्त करता है ?

$$(A) 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (B) 1 - \frac{1}{r^{\gamma+1}}$$

$$(C) 1 + \frac{1}{r^{\gamma-1}} \quad (D) 1 + \frac{1}{r^{\gamma+1}}$$

53 Which of the following item is not a path function ?

- (A) Heat
 - (B) Work
 - (C) Kinetic energy
 - (D) Thermal conductivity
- इनमें से क्या एक पथ फलन नहीं है ?
- (A) कार्य
 - (B) कार्य
 - (C) गतिज ऊर्जा
 - (D) कष्टीय चालकता

54 The value of C_p/C_v for air is {Where $\therefore C_p =$ Specific heat at constant pressure, $C_v =$ Specific heat at constant volume}

$$\therefore C_p/C_v \text{ का मान है } \{जहाँ : C_p = \text{अचर दाव पर विशिष्ट कोण}, \therefore C_v = \text{अचर आवरण पर विशिष्ट ऊर्जा}\}$$

$$(A) 1 \quad (B) 1.4 \quad (C) 1.45 \quad (D) 2.3$$

55 The metal are good thermal conductors because -

- (A) their atoms are close to each other
 - (B) their atoms are in big size
 - (C) they consist free electrons
 - (D) None of these
- धूत अद्यत तापीय चालक होते हैं क्योंकि -
- (A) उनके परमाणु प्रस-प्राप्त होते हैं
 - (B) उनके परमाणु बड़े पाप के होते हैं
 - (C) इनमें स्थृत इलेक्ट्रॉन होते हैं
 - (D) इनमें से कोई नहीं

56 The unit of overall co-efficient of heat transfer is -
ऊष्मानांतरण के समग्र गुणक की इकाई है -

$$(A) W/m^2 - k \quad (B) W/m^2$$

$$(C) W/mk \quad (D) W/m$$

57 The value of Prandtl number for air is about -
वायु के लिए प्रांडल (Prandtl) संख्या का मूल्य लगभग है -

$$\left\{ \begin{array}{l} (A) 0.1 \quad (B) 0.3 \\ (C) 0.7 \quad (D) 1.7 \end{array} \right.$$

58 The heat of sun reaches to us according to -
(A) Conduction (B) Convection
(C) Radiation (D) None of these

सूर्य की उष्मा हम तक पहुँचती है -
(A) चालन (फैडबैक्सन) द्वारा
(B) संबंधन द्वारा
(C) विकिरण द्वारा
(D) इनमें से कोई नहीं

59 The product of Reynolds number and Prandtl number is known as -
(A) Stanton number (B) Biot number
(C) Pecllet number (D) Grashoff number

नेहोल्डस संख्या और प्रांडल (Prandtl) संख्या के उत्ताद को किस तरह में जाना जाता है ?

$$\left\{ \begin{array}{l} (A) स्टेन संख्या \quad (B) वायोट संख्या \\ (C) पेहले तं संख्या \quad (D) ग्राफ संख्या \end{array} \right.$$

60 The formula of the discharge over a rectangular notch is -
अशताकार नॉच पर से विसर्जन के लिए सूत्र है -

$$\left\{ \begin{array}{l} (A) \frac{2}{3} C_d \times b \sqrt{2gH} \\ (B) \frac{2}{3} C_d \times b \sqrt{2g} \times H \\ (C) \frac{2}{3} C_d \times b \sqrt{2g} \times H^{3/2} \\ (D) \frac{2}{3} C_d \times b \sqrt{2g} \times H^2 \end{array} \right.$$

61 The unit speed of the turbine runner is -
टर्बाइन रनर की इकाई गति है -

$$(A) \frac{N}{\sqrt{H}} \quad (B) \frac{N}{H}$$

$$(C) \frac{N}{H^{3/2}} \quad (D) \frac{N}{H^2}$$

इनमें से क्या आवश्यक है ?

- (A) विशिष्ट भार
- (B) विशिष्ट आवरण
- (C) विशिष्ट गति
- (D) विशिष्ट गुरुत्वाकरण

62 Francis turbine is -
(A) radial flow turbine

- (B) axial flow turbine
- (C) mixed flow turbine
- (D) inward flow radial type turbine

फ्रेसिस टर्बाइन है -
(A) रेटियल प्रवाह टर्बाइन

- (B) अक्षीय प्रवाह टर्बाइन
- (C) विशिष्ट प्रवाह टर्बाइन
- (D) आवक प्रवाह रेतियल प्रकार टर्बाइन

63 A hydraulic intensifier normally consist of -
(A) two cylinder, two ram and a storage device

- (B) a cylinder and a ram
- (C) two co-axial rams and two cylinder
- (D) a cylinder, a piston, storage tank and control valve

एक हाइड्रोलिक तीव्रकारक सामान्यतः मिना का बना होता है -
(A) दो सिलेंडर, दो रैम और एक स्टोरेज डिवाइस

- (B) एक सिलेंडर और एक रैम
- (C) दो सह-अक्षीय रैम और दो सिलेंडर
- (D) एक सिलेंडर, एक पिस्टन, स्टोरेज टैंक और कंट्रोल वाल्व

64 The underlying principle behind a hydraulic press is based on -

- (A) Bramah's
 - (B) Pascal's
 - (C) Stoke's
 - (D) Newton's
- द्रवचालित (हाइड्रोलिक) प्रेस किस अंतिमिति तिळ्डात पर आधारित है ?
- (A) ब्राम्ह का
 - (B) पास्कल का
 - (C) स्टोक का
 - (D) न्यूटन का

65 Which of the following is dimensionless ?

- (A) Specific Weight
- (B) Specific Volume
- (C) Specific Speed
- (D) Specific Gravity

इनमें से क्या आवश्यक है ?

- (A) विशिष्ट भार
- (B) विशिष्ट आवरण
- (C) विशिष्ट गति
- (D) विशिष्ट गुरुत्वाकरण

66 A draft tube helps in converting kinetic energy into -

- (A) electrical energy
- (B) pressure energy
- (C) chemical energy
- (D) thermal energy

एक ड्रॉफ्ट ट्यूब गतिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है ?

- (A) विशुद्ध ऊर्जा
- (B) वायर कर्जा
- (C) राशनिक ऊर्जा
- (D) तापीय ऊर्जा

67 The underlying principle behind a hydraulic press is based on -

- (A) Bramah's
 - (B) Pascal's
 - (C) Stoke's
 - (D) Newton's
- द्रवचालित (हाइड्रोलिक) प्रेस किस अंतिमिति तिळ्डात पर आधारित है ?

(A) ब्राम्ह का

(B) पास्कल का

(C) स्टोक का

(D) न्यूटन का

68 The unit discharge through a turbine is -

एक टर्बाइन में से इकाई निकासी है -

- (A) $\frac{Q}{H}$
- (B) $\frac{Q}{\sqrt{H}}$
- (C) $\frac{Q}{H^{3/2}}$
- (D) $\frac{Q}{H^2}$


P.T.O.

69

- 69 Specific speed of a turbine depends upon
 (A) Speed, Power and Discharge
 (B) Discharge and Power
 (C) Speed and Head of Water
 (D) Speed, Power and Head of Water
- 70 एक टर्बाइन की विशेष गति निम्न है, इन पर
 (A) गति, शक्ति और निकासी
 (B) निकासी और शक्ति
 (C) गति और पानी की केंद्रीयता
 (D) गति, शक्ति और पानी की केंद्रीयता

- 73 A beam which is fixed at one end and free at the other is called -
 (A) Simply supported beam
 (B) Fixed beam
 (C) Overhanging beam
 (D) Cantilever beam
- एक धारत जिसका एक सिरा स्थायी और दूसरा सिरा स्वतंत्र हो कहलाता है -
 (A) शुल्कमित्र धारन (B) स्थायी धारन
 (C) तटकी दूधी (D) कैन्टीलिवर धारन
- 74 The centre to centre distance between two consecutive rivets in a row is called -
 (A) Margin (B) Pitch
 (C) Back pitch (D) Diagonal pitch
- एक पंकित में दो लगातार rivets (रिवेट्स) के बीच के क्रम से क्रम की दूरी को कहा जाता है -
 (A) हाईया (आर्जन) (B) पिच
 (C) फेले के पिच (D) विकर्ण पिच

- 77 By which of following command you can draw a rectangle in Auto CAD ?
 एक आयत बनाने के लिए अँटो कैमें का कौन सा कमांड उपयोग में लिया जाएगा ?
 (A) ARC (B) POL
 (C) REC (D) CO
- 78 Which of the following views provide clear information of internal features of a part ?
 (A) Section views (B) Oblique views
 (C) Auxiliary views (D) Pictorial views
- जिसलिखित में से कौन सा दृश्य किसी पूर्ण की आनंदिक जानकारी सह रूप से प्रदान करता है ?
 (A) परिक्रम दृश्य (B) लिंगिक दृश्य
 (C) सहायक दृश्य (D) सिरिय दृश्य
- 79 This is a common method for connecting steel members of buildings and bridges -
 (A) Assembly (B) Fabricating
 (C) Riveting (D) Welding
- इमारों और पुलों के इस्पात अवयवों (मिकर्स) को जोड़ने के लिए एक सामान्य विधि है -
 (A) समन्वयाजन (B) निर्माण करना
 (C) रिवेटन (कीलक से जोड़ना)
 (D) वेलिंग
- 75 Which theory gives satisfactory results for brittle materials ?
 (A) Maximum shear stress theory
 (B) Maximum principal stress theory
 (C) Shear strain energy theory
 (D) None of these
- कौन सा विद्युत भूयां पराय के लिए संतोषप्रद फर्माय देता है ?
 (A) अधिकतम अवरोधण प्रतिवल सिद्धांत
 (B) अधिकतम प्रमुख प्रतिवल सिद्धांत
 (C) अपरूपण विकृति ऊर्जा सिद्धांत
 (D) इनमें से कोई नहीं



- 76 Hooke's law is applicable within :
 (A) elastic limit (B) plastic limit
 (C) fracture limit (D) ultimate strength
- कैन्टीलिवर बीम का उदाहरण है -
 (A) प्रत्याख्य सीमा (B) लैटिक्टका सीमा
 (C) फ्रेक्चर सीमा (D) वर्त्य सीमा
- 77 Example for cantilever beam is -
 (A) Portico slabs (B) Roof slab
 (C) Bridge (D) Railway sleepers

- 78 Joules Thomson co-efficient is defined as -
 जूल थॉमसन गुणक को परिचालित किया गया है -
 (A) सुपरहीट की डिग्री (B) शुक्तराश
 (C) उष्मीय यात्रा (D) इनमें से कोई नहीं
- 79 The pressure at the end of compression in the case of diesel engine is of the order of -
 डीजल इंजन के मामले में सीपीडब्ल्यू के अंत में दबाव के क्रम रखा है ?
 (A) 6 kg/cm² (B) 12 kg/cm²
 (C) 20 kg/cm² (D) 35 kg/cm²
- 80 In adiabatic process $\frac{T_1}{T_2}$ is -
 न्यूट्रोजन प्रक्रम में $\frac{T_1}{T_2}$ होता है -

- (A) $\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\gamma}$ (B) $\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma}$
 (C) $\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}$ (D) $= \left(\frac{V_1 V_2}{2\gamma}\right)^{\frac{\gamma-1}{2}}$
- 81 Super heated steam of temperature t_{sup} and t_{sat} difference is called -
 (A) Degree of super heat
 (B) Dryness fraction
 (C) Calorific value
 (D) None of these
- अति तर धाप के तापमान t_{sup} और t_{sat} का अन्तर कहलाता है -
 (A) सुपरहीट की डिग्री (B) शुक्तराश
 (C) उष्मीय यात्रा (D) इनमें से कोई नहीं

- 82 Joules Thomson co-efficient is defined as -
 जूल थॉमसन गुणक को परिचालित किया गया है -
 (A) $\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$ (B) $\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$
 (C) $\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$ (D) $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_h$
- 83 The pressure at the end of compression in the case of diesel engine is of the order of -
 डीजल इंजन के मामले में सीपीडब्ल्यू के अंत में दबाव के क्रम रखा है ?
 (A) समन्वयाजन (B) निर्माण करना
 (C) रिवेटन (कीलक से जोड़ना)
 (D) वेलिंग
- 84 Work done in a free expansion process is -
 (A) +ve (B) -ve
 (C) Zero (D) Maximum
- एक निवाय प्रसाण प्रक्रिया में किसा गया कार्य है -
 (A) +ve (B) -ve
 (C) Zero (जीरो) (D) अधिकतम

- 85 The torque transmitted by a solid shaft is -
 एक ठोस शाफ्ट द्वारा कितना बलाघूरु उत्पन्न होता ?
 (A) $\frac{\pi}{4} d^3 \tau$ (B) $\frac{\pi}{8} d^3 \tau$
 (C) $\frac{V_1}{V_2} \tau$ (D) $= (V_1 V_2)^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}$

- 86 In adiabatic process $\frac{T_1}{T_2}$ is -
 न्यूट्रोजन प्रक्रम में $\frac{T_1}{T_2}$ होता है -

- (A) $\left(\frac{P_1}{P_2}\right)^{\gamma}$ (B) $\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma}$
 (C) $\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}$ (D) $= \left(\frac{V_1 V_2}{2\gamma}\right)^{\frac{\gamma-1}{2}}$

- 87 P.T.O. +

- 88 P.T.O. +

- 89 P.T.O. +

- 90 P.T.O. +

- 91 P.T.O. +

- 92 P.T.O. +

- 93 P.T.O. +

- 94 P.T.O. +

- 95 P.T.O. +

- 96 P.T.O. +

- 97 P.T.O. +

- 98 P.T.O. +

- 99 P.T.O. +

- 100 P.T.O. +

- 101 P.T.O. +

- 102 P.T.O. +

- 103 P.T.O. +

- 104 P.T.O. +

- 105 P.T.O. +

- 106 P.T.O. +

- 107 P.T.O. +

- 108 P.T.O. +

- 109 P.T.O. +

- 110 P.T.O. +

- 111 P.T.O. +

- 112 P.T.O. +

- 113 P.T.O. +

- 114 P.T.O. +

- 115 P.T.O. +

- 116 P.T.O. +

- 117 P.T.O. +

- 118 P.T.O. +

- 119 P.T.O. +

- 120 P.T.O. +

- 121 P.T.O. +

- 122 P.T.O. +

- 123 P.T.O. +

- 124 P.T.O. +

- 125 P.T.O. +

- 126 P.T.O. +

- 127 P.T.O. +

- 128 P.T.O. +

- 129 P.T.O. +

- 130 P.T.O. +

- 131 P.T.O. +

- 132 P.T.O. +

- 133 P.T.O. +

- 134 P.T.O. +

- 135 P.T.O. +

- 136 P.T.O. +

- 137 P.T.O. +

- 138 P.T.O. +

- 139 P.T.O. +

- 140 P.T.O. +

- 141 P.T.O. +

- 142 P.T.O. +

- 143 P.T.O. +

- 144 P.T.O. +

- 145 P.T.O. +

- 146 P.T.O. +

- 147 P.T.O. +

- 148 P.T.O. +

- 149 P.T.O. +

- 150 P.T.O. +

- 151 P.T.O. +

- 152 P.T.O. +

- 153 P.T.O. +

- 154 P.T.O. +

- 155 P.T.O. +

- 156 P.T.O. +

- 157 P.T.O. +

- 158 P.T.O. +

- 159 P.T.O. +

- 160 P.T.O. +

- 161 P.T.O. +

- 162 P.T.O. +

- 163 P.T.O. +

- 164 P.T.O. +

- 165 P.T.O. +

- 166 P.T.O. +

- 167 P.T.O. +

- 168 P.T.O. +

- 169 P.T.O. +

- 170 P.T.O. +

- 171 P.T.O. +

- 172 P.T.O. +

- 173 P.T.O. +

- 174 P.T.O. +

- 175 P.T.O. +

- 176 P.T.O. +

- 177 P.T.O. +

- 178 P.T.O. +

- 179 P.T.O. +

- 180 P.T.O. +

- 181 P.T.O. +

- 182 P.T.O. +

- 183 P.T.O. +

- 184 P.T.O. +

- 185 P.T.O. +

- 186 P.T.O. +

- 187 P.T.O. +

- 188 P.T.O. +

- 189 P.T.O. +

- 190 P.T.O. +

- 191 P.T.O. +

- 192 P.T.O. +

- 193 P.T.O. +

- 194 P.T.O. +

- 195 P.T.O. +

- 196 P.T.O. +

- 197 P.T.O. +

- 198 P.T.O. +

- 199 P.T.O. +

- 200 P.T.O. +

- 201 P.T.O. +

- 202 P.T.O. +

- 203 P.T.O. +

- 204 P.T.O. +

- 205 P.T.O. +

- 206 P.T.O. +

- 207 P.T.O. +

- 208 P.T.O. +

- 209 P.T.O. +

- 210 P.T.O. +

- 211 P.T.O. +

- 212 P.T.O. +

- 213 P.T.O. +

- 214 P.T.O. +

- 215 P.T.O. +

- 216 P.T.O. +

- 217 P.T.O. +

- 218 P.T.O. +

- 219 P.T.O. +

- 220 P.T.O. +

- 221 P.T.O. +

- 222 P.T.O. +

- 223 P.T.O. +

- 224 P.T.O. +

- 225 P.T.O. +

- 226 P.T.O. +

- 227 P.T.O. +

- 228 P.T.O. +

- 229 P.T.O. +

- 230 P.T.O. +

- 231 P.T.O. +

- 232 P.T.O. +

- 233 P.T.O. +

- 234 P.T.O. +

- 235 P.T.O. +

- 236 P.T.O. +

- 237 P.T.O. +

- 238 P.T.O. +

- 239 P.T.O. +

- 240 P.T.O. +

- 241 P.T.O. +

- 242 P.T.O. +

- 243 P.T.O. +

- 244 P.T.O. +

- 245 P.T.O. +

- 246 P.T.O. +

- 247 P.T.O. +

- 248 P.T.O. +

- 249 P.T.O. +

- 250 P.T.O. +

- 251 P.T.O. +

- 252 P.T.O. +

- 253 P.T.O. +

- 254 P.T.O. +

- 255 P.T.O. +

- 256 P.T.O. +

- 257 P.T.O. +

- 258 P.T.O. +

- 259 P.T.O. +

- 260 P.T.O. +

- 261 P.T.O. +

- 262 P.T.O. +

- 263 P.T.O. +

- 264 P.T.O. +

- 265 P.T.O. +

- 266 P.T.O. +

- 267 P.T.O. +

- 268 P.T.O. +

- 269 P.T.O. +

- 270 P.T.O. +

- 271 P.T.O. +

86 The property by virtue of which a metal can be beaten into plates is called -

- (A) Ductility
 - (B) Malleability
 - (C) Resilience
 - (D) Hardness
- वह गुण जिसके द्वारा किसी भी धातु को पीट कर चार में बदला जा सके, कहलाता है -

- (A) लचीलापन (तंत्रज्ञान)
- (B) आधातवर्यता
- (C) प्रस्थायता
- (D) कठोरता

87 If a beam is supported on more than two supports, it is called a -

- (A) Built - in beam
 - (B) Continuous beam
 - (C) Simply supported beam
 - (D) Fixed beam
- यदि एक बीम दो से अधिक जगह पर रिहा हो तो उसे कहते हैं -

- (A) अंतर्मित बीम
- (B) निरंतर (स्थिर) बीम
- (C) शुद्धालक्ष बीम
- (D) स्थायी बीम

90 Which of the following is a permanent fastening ?

- (A) Bolts
 - (B) Keys
 - (C) Cotters
 - (D) Rivets
- निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी बंधन है ?

- (A) बोल्ट
- (B) चारियाँ
- (C) कॉर्टर्स
- (D) रिवेट्स

91 The ratio of the ultimate stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

चारम प्रतिबल से अधिकलय प्रतिबल के अनुपात को जाना जाता है -

- (A) प्रत्यास्थान सीमा
- (B) तनाव
- (C) सुरक्षा के कारक
- (D) शोक मापाक

92 The leaves of laminated spring are subjected to -

- (A) bending stress
- (B) shear stress
- (C) axial stress
- (D) all of these

फलिल सिंग की परियों में कौन सा प्रतिबल लगता है ?

- (A) बहकन प्रतिबल

- (C) अधीर प्रतिबल

- (D) देर सभी

94 Cotter joint is used when the members are subjected to which type of stresses ?

- (A) Axial tensile
- (B) Axial compressive
- (C) Axial tensile or compressive
- (D) None of these

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

95 A beam is supported on more than two

- (A) Built - in beam
- (B) Continuous beam
- (C) Simply supported beam
- (D) Fixed beam

चारम प्रतिबल से अधिकलय प्रतिबल के अनुपात को जाना जाता है -

- (A) प्रत्यास्थान सीमा
- (B) तनाव
- (C) सुरक्षा के कारक
- (D) शोक मापाक

96 Periodic time in Simple Harmonic Motion is -

- (A) सरल आवर्त गति में आवर्तकाल होता है -
- (B) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
- (C) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$
- (D) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{L}{g}}$

97 The average energy of turning wheel is -

- (A) $I\omega^2$
- (B) $\frac{I\omega^2}{2}$
- (C) $\frac{I\omega^2}{3}$
- (D) $\frac{I\omega^2}{4}$

98 When tolerance is given on one side of the basic dimension, it is called -

- (A) Tolerance system

- (B) Allowance system

- (C) Unilateral system

- (D) Bilateral system

जब मूल आयाम के एक तरफ सहिष्णुता (टोलरेन्स) दी जाती है, तो इसे कहा जाता है -

- (A) सहिष्णुता (टोलरेन्स) प्रणाली
- (B) फूट (अलाउंस) प्रणाली
- (C) एकलय स्थानांशी
- (D) द्विपार्श्वीक प्रणाली

99 The ratio of transverse strain to axial strain is called -

- (A) Shear strain
- (B) Factor of safety
- (C) Poisson's ratio
- (D) Volumetric strain

(A) अनुप्रश्न लक्षण तथा अशीय तनाव का अनुपात कहलाता है -

- (B) सुरक्षा गुणांक

- (C) प्रश्नानन अनुपात

- (D) आयतन विकृति

100 The radius of gyration of a circular column of diameter d is -

- (A) $\frac{d}{4}$
- (B) $\frac{d}{2}$
- (C) $\frac{d^2}{16}$
- (D) $\frac{d^2}{4}$

101 The ratio of maximum shear stress and average stress in a circular section is -

- (A) एक तुरीय छड़ में अधिकतम अप्रतिबल और असर प्रतिबल का अनुपात है -
- (B) 1.25
- (C) 1.5
- (D) 4/3

102 The contact ratio for gear is -

- (A) Zero

- (B) One

- (C) Less than one

- (D) Greater than one

पियर के लिए समर्थक अनुपात होता है -

- (A) शून्य
- (B) एक
- (C) एक से कम
- (D) एक से ज्यादा

103 A Hartnell governor is a -

- (A) Dead weight governor
- (B) Pendulum type governor
- (C) Spring loaded governor
- (D) Inertia governor

(A) हार्टनेल गवर्नर एक है -

- (B) मैंडुलम प्रकार का गवर्नर

- (C) प्रिंग लोडेड गवर्नर

- (D) जड़तल गवर्नर

104 Cotter joint is used when the members are subjected to which type of stresses ?

- (A) Axial tensile
- (B) Axial compressive
- (C) Axial tensile or compressive
- (D) None of these

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

105 A maximum of how many rods may be connected using a knuckle joint ?

- (A) एक नक्ल जोड़ का प्रयोग करते हुए अधिकतम कितनी छड़ों को जोड़ा जा सकता है ?
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

106 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

चारम प्रतिबल से अधिकलय प्रतिबल के अनुपात को जाना जाता है -

- (A) प्रत्यास्थान सीमा
- (B) तनाव
- (C) सुरक्षा के कारक
- (D) शोक मापाक

107 The average energy of turning wheel is -

- (A) $2\pi\sqrt{\frac{g}{L}}$
- (B) $2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$
- (C) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{L}}$
- (D) $\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{L}{g}}$

108 What is the type scale in which the representative fraction is 1:1?

- (A) Enlarged scale
- (B) Reduced scale
- (C) Full size scale
- (D) Graphical scale

प्रकार ऐमाना कहा है कि जिसमें प्रतिनिधि अनुपात 1:1 है ?

- (A) बड़े हुए भैमाने
- (B) बहु छुआ ऐमाना
- (C) पूर्ण आकार का ऐमाना
- (D) विक्रम्य ऐमाना

109 U.D.L. stand for -

- (A) Uniformly Diluted Length
- (B) Uniformly Developed Loads
- (C) Uniaxial Distributed Loads
- (D) Uniformly Distributed Loads

जब मूल आयाम के एक तरफ सहिष्णुता (टोलरेन्स) दी जाती है, तो इसे कहा जाता है -

- (A) सहिष्णुता (टोलरेन्स) प्रणाली
- (B) फूट (अलाउंस) प्रणाली
- (C) एकलय स्थानांशी
- (D) द्विपार्श्वीक प्रणाली

110 The relation between Young's modulus and modulus of rigidity is -

- (A) $E = \frac{1}{2N(1+v)}$
- (B) $E = 2N(1-v)$
- (C) $E = \frac{1}{2N(1-v)}$
- (D) $E = 2N(1-v)$

(A) समान रूप से उत्कृष्ट लक्षण

- (B) समान रूप से विकसित भार

- (C) एक अक्षीय विकित भार

- (D) समान रूप से विकित भार

111 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

112 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

113 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

114 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

115 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

116 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

117 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

118 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

119 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

120 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

121 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

122 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B) चारियाँ

- (C) कॉर्टर्स

- (D) रिवेट्स

123 The ratio of maximum shear stress to the design stress is known as -

- (A) Elastic limit
- (B) Strain
- (C) Factor of safety
- (D) Bulk modulus

(A) बाल्ट

- (B)

104 In high pressure compressor discharge pressure is -

- (A) 10 to 15 kg/cm^2
- (B) 8 to 10 kg/cm^2
- (C) 5 to 8 kg/cm^2
- (D) 1 to 5 kg/cm^2

105 If compressor air flow is parallel to its axis then compressor is called -

- (A) Axial flow compressor
 - (B) Reciprocating compressor
 - (C) Centrifugal compressor
 - (D) Turbo compressor
- यदि संप्रीक के बायु का प्रवाह इसकी अक्ष के समान्तर हो तो वह संप्रीक कहा जाता है -

- (A) अक्षीय प्रवाह संप्रीक (B) प्रत्यागामी संप्रीक
- (C) अपेक्षी संप्रीक (D) टर्बो संप्रीक

106 Specific speed for impulse wheels ranges from -

- (A) 0 to 4.5
- (B) 10 to 100
- (C) 80 to 200
- (D) 250 to 300

107 Reciprocating pumps are also called as -

- (A) Force pumps
- (B) Mass pumps
- (C) Heat pumps
- (D) Speed pumps

प्रत्यागामी पंप को _____ भी कहा जाता है।

- (A) बल पंप
- (B) मास पंप
- (C) ऊपर पंप
- (D) रेजिनेटर पंप

108 The ratio of actual velocity to the local velocity of sound is called -

- (A) Velocity ratio
 - (B) Velocity factor
 - (C) Speed ratio
 - (D) Mach number
- खनी का वाल्विक वेग से स्थगित वेग का अनुपर कहलाता है -

- (A) वेग अनुपर
- (B) वेग कारक
- (C) गति अनुपर
- (D) मैक चबर

109 If stage efficiency is S, blade efficiency is B and nozzle efficiency is N, then

यदि स्टेज रक्षणा S है, खड़क रक्षणा B है और नोजर रक्षणा N है, तो -

- (A) $N = B \cdot S$
- (B) $S = B \cdot N$
- (C) $B = S \cdot N$
- (D) $B \cdot S \cdot N = 1$

110 Drop wise condensation usually occurs on -

- (A) Oily surface
 - (B) Glazed surface
 - (C) Smooth surface
 - (D) Coated surface
- ह्रेप वाइज संधन समान अमरीर पर क्षेत्र स्तर ह पर होता है ?

- (A) तैलीय स्तर

- (B) चमकवार स्तर

- (C) विकारी स्तर

- (D) विलेपित स्तर

111 Thermal radiation takes place at a surface which has a reflectivity of 0.55 and a transmissivity of 0.032. What is the value of absorptivity ?

- एक स्तर जहाँ तापीय विकिरण हो रहा है जिसमें प्रत्यारूपीता 0.55 है तथा प्रारम्भिका 0.032 है तो अवशोषकता का मान क्या होगा ?
- (A) 1
 - (B) 0.418
 - (C) 0.55
 - (D) 0.032

112 The number of dead centres in a crank driven slider crank mechanism are -

- (A) कोई

- (B) संदेशन प्रमाण

- (C) कोई नहीं

- (D) इनमें से कोई नहीं

113 The automobile radiator is a heat exchanger of which of the following type ?

- (A) Parallel flow type
- (B) Counter flow type
- (C) Cross flow type
- (D) Regenerative type

114 When one of the links of a kinematic chain is fixed, the chain is known as -

- (A) Structure
- (B) Mechanism
- (C) Inversion
- (D) Machine

जब एक किनेमेटिक शृंखला के लिंक में से एक को स्थायी (फिक्स) किया जाता है, तो शृंखला को इस रूप में जाना जाता है -

- (A) संरचना

- (B) तंत्र

- (C) मशीन

- (D) मशीन

115 The Heat transfer equation $Q = \sigma AT^4$ is called -

- (A) Stefan-Boltzmann law
- (B) Poisson law
- (C) Fourier law
- (D) Newton's law

उसा अन्तरण समीकरण $Q = \sigma AT^4$ कहलाती है -

- (A) स्टेफन-बोल्जमन विधि
- (B) पाइजन विधि
- (C) फूरियर विधि
- (D) न्यूटन विधि

116 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

117 The coriolis component of acceleration leads to the sliding velocity by -

- (A) विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

118 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

119 In a locomotive the maximum magnitude of the unbalanced force along the perpendicular to the line of stroke is known as -

- (A) tractive force
- (B) swaying couple
- (C) hammer blow
- (D) none of these

एक लोकोमोटिव में दोखों की रेखा के लंबवत असंतुलित बल के अधिकतम परिमाण को क्या कहते हैं ?

- (A) क्रोण (ट्रिक्टिय) बल
- (B) संदेशन प्रमाण
- (C) हैमर बल
- (D) इनमें से कोई नहीं

120 In an automobile, if the vehicle makes a left turn, the gyroscopic torque -

- (A) क्रोण (ट्रिक्टिय) बल
- (B) संदेशन प्रमाण
- (C) हैमर बल
- (D) इनमें से कोई नहीं

121 P.T.O. +

117 The coriolis component of acceleration leads to the sliding velocity by -

- (A) विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

118 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

119 In a locomotive the maximum magnitude of the unbalanced force along the perpendicular to the line of stroke is known as -

- (A) tractive force
- (B) swaying couple
- (C) hammer blow
- (D) none of these

एक लोकोमोटिव में दोखों की रेखा के लंबवत असंतुलित बल के अधिकतम परिमाण को क्या कहते हैं ?

- (A) क्रोण (ट्रिक्टिय) बल
- (B) संदेशन प्रमाण
- (C) हैमर बल
- (D) इनमें से कोई नहीं

120 In an automobile, if the vehicle makes a left turn, the gyroscopic torque -

- (A) क्रोण (ट्रिक्टिय) बल
- (B) संदेशन प्रमाण
- (C) हैमर बल
- (D) इनमें से कोई नहीं

121 The coriolis component of acceleration leads to the sliding velocity by -

- (A) विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

122 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

123 The Heat transfer equation $Q = \sigma AT^4$ is

- called -

- (A) Stefan-Boltzmann law
- (B) Poisson law
- (C) Fourier law
- (D) Newton's law

उसा अन्तरण समीकरण $Q = \sigma AT^4$ कहलाती है -

- (A) स्टेफन-बोल्जमन विधि
- (B) पाइजन विधि
- (C) फूरियर विधि
- (D) न्यूटन विधि

124 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

125 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

126 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

127 The coriolis component of acceleration leads to the sliding velocity by -

- (A) विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

128 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

129 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

130 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म दोनों शून्य होने चाहिए।
- (D) इनमें से कोई नहीं

131 In order to have a complete balance of the several revolving masses in different planes

- (A) the resultant force must be zero.
- (B) the resultant couple must be zero.
- (C) both the resultant force and couple must be zero.

(D) none of these विभिन्न समतलों में कई दूसरे वाले द्रव्यमानों का पूरा संतुलन रखने के लिए क्या आवश्यक है ?

- (A) विभिन्नी बल शून्य होना चाहिए।
- (B) विभिन्नी युग्म शून्य होना चाहिए।
- (C) विभिन्नी बल तथा युग्म